

VARIANCE FAQs	वेरिअंस से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
<b><u>Dine-in Restaurants</u></b>	<b><u>डाइन-इन रेस्तरां</u></b>
<b>Is dining in a restaurant safe?</b>	<b>क्या किसी रेस्तरां में भोजन करना सुरक्षित है?</b>
<p>Yes, dining in a restaurant is safe <u>if</u> both patrons and restaurant operators follow the Public Health infection control protocols. Los Angeles County would not have sought to reopen this critical element of our community if the metrics that show our progress indicated uncontrolled COVID-19 infection rates.</p>	<p>हाँ, रेस्तरां में भोजन करना सुरक्षित है बशर्ते ग्राहक और रेस्तरां संचालक, दोनों सार्वजनिक स्वास्थ्य संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल्स का पालन करें। यदि हमारी प्रगति दिखाने वाले आंकड़े यह दिखाते कि कोविड-19 (COVID-19) के संक्रमण की दरें अनियंत्रित हैं, तो लॉस एंजेलिस काउंटी ने हमारे समुदाय के इस महत्वपूर्ण घटक को दोबारा खोलने की दिशा में कदम न बढ़ाए होते।</p>
<p>But because person-to-person contact is how COVID-19 spreads, the County is limiting capacity in restaurants, mandating physical distancing and face coverings and requiring new infection control protocols in restaurants.</p>	<p>पर चूंकि कोविड-19 (COVID-19) व्यक्ति-से-व्यक्ति संपर्क के माध्यम से फैलता है, अतः काउंटी रेस्तरांओं में क्षमता सीमित कर रही है, शारीरिक दूरी और फ़ेस कवर अनिवार्य कर रही है, और रेस्तरांओं में नए संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल आवश्यक कर रही है।</p>
<b>Is dining outdoors safer than dining indoors?</b>	<b>क्या बाहर खुले में भोजन करना भवन के अंदर भोजन करने से अधिक सुरक्षित है?</b>
<p>Both indoor and outdoor dining can be safe when Public Health infection control protocols are followed.</p>	<p>सार्वजनिक स्वास्थ्य संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल्स का पालन करने पर, भवन के अंदर और बाहर खुले में, दोनों स्थानों पर भोजन करना सुरक्षित हो सकता है।</p>
<b>Do servers need to wear masks and/or gloves?</b>	<b>क्या सर्वर्स को मास्क और/या दस्ताने पहनने होंगे?</b>
<p>All restaurant workers should minimize the amount of time spent within six feet of guests. Depending on the work they do, employees will be required to wear cloth face coverings, face shields, and/or gloves if they are in contact with others.</p>	<p>सभी रेस्तरां कर्मियों को अतिथियों के छः फ़ीट के दायरे में कम-से-कम समय बिताना चाहिए। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर, यदि वे दूसरों के संपर्क में हैं तो उनके लिए कपड़े के फ़ेस कवर, फ़ेस शील्ड और/या दस्ताने पहनना आवश्यक होगा।</p>
<b>Are all patrons required to receive a temperature check upon entry?</b>	<b>क्या प्रवेश के समय सभी ग्राहकों का तापमान जाँचा जाना आवश्यक है?</b>

It's not required, but some restaurants may choose to do this. However, patrons should always make use of available hand sanitizer, and wear a face covering when not eating or drinking. If you feel sick, please stay home and do not go to a restaurant.	यह आवश्यक नहीं है, पर कुछ रेस्तरां ऐसा करने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, ग्राहकों को हमेशा उपलब्ध हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए और जब वे कुछ खा या पी न रहे हों तो फ़ेस कवर पहनना चाहिए। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हों, तो कृपया घर पर ही रहें और रेस्तरां न जाएँ।
<b>Are bathrooms cleaned after each use?</b>	<b>क्या बाथरूम को प्रत्येक उपयोग के बाद साफ़ किया जाता है?</b>
Bathrooms are required to be checked regularly and must be cleaned on an hourly basis with approved Environmental Protection Agency (EPA) disinfectants.	बाथरूम की नियमित रूप से जाँच करना आवश्यक है और उन्हें हर घंटे पर्यावरण संरक्षण अभिकरण (एन्वायरन्मेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA) द्वारा अनुमोदित विसंक्रामकों (डिसइन्फ़ेक्टेंट) से साफ़ किया जाना चाहिए।
<b>Are new requirements in place for food handling?</b>	<b>क्या खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग के लिए नई आवश्यकताएँ लागू हैं?</b>
Existing food handling and food preparations protocols already safeguard against foodborne illness	मौजूदा खाद्य पदार्थ हैंडलिंग एवं खाद्य विरचना प्रोटोकॉल्स खाद्य पदार्थों से फैलने वाले रोगों के विरुद्ध पहले से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं
<b>Are menus safe to use?</b>	<b>क्या मेन्यू का उपयोग सुरक्षित है?</b>
Reusable menus are cleaned and disinfected between each customer use. Alternatives such as stationary menu boards, electronic menus, or mobile device downloadable menus should be considered by establishments.	बार-बार उपयोग किए जाने वाले मेन्यू को प्रत्येक ग्राहक द्वारा उपयोग से पहले साफ़ और विसंक्रमित किया जाता है। प्रतिष्ठानों को स्थिर मेन्यू बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेन्यू, या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड हो सकने वाले मेन्यू जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए।
<b>What is the best way to pay?</b>	<b>भुगतान का सर्वोत्तम तरीका क्या है?</b>
Cashless transactions are strongly encouraged.	कैशलेस लेनदेनों को प्रबल रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।
<b>Can I sit at the bar?</b>	<b>क्या मैं बार में बैठ सकता/ती हूँ?</b>
No. Bar area and countertop service is not allowed.	नहीं। बार क्षेत्र और काउंटरटॉप सेवा की अनुमति नहीं है।